

**Date: December 14, 2017**

To, BSE Limited	To, Delhi Stock Exchange Limited	To, Ahmedabad Stock Exchange Limited	To, Jaipur Stock Exchange Limited
Corporate Relation Department	Mr. P.K Mishra	The Manager	The Manager
Phiroze Jeejeebhoy Towers	Head Listing & Compliance	Listing Department	Listing Department
Dalal Street	3/1, Asaf Ali Road	Kamdhenu Complex	Stock Exchange Building
Mumbai- 400001	New Delhi – 110002	Opp. Sahajanand College, Panjrapole	JLN Marg , Malviya Nagar
		Ahmedabad – 380015 (Gujarat)	Jaipur - 302017 (Rajasthan)

**Subject: Newspaper publication of Un-audited Financial Results for second quarter and half year ended 30<sup>th</sup> September, 2017 pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.**

**Scrip Code: 514394**

Dear Sir,

This is to inform you that pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015, Un-audited Financial results for second quarter and half year ended 30<sup>th</sup> September, 2017 have been published in English daily and regional newspaper. Please find enclosed the newspaper cuttings of the same.

Please take the information in your records.

Thanking You,

**For ATLAS Jewellery India Limited**

  
(Chandan Mahapatra)  
Company Secretary & CFO

Encl: As Above





The spike in international oil prices is due to some pipeline turbulence in Europe and winter demand. Today, price is under control in India. The government is very concerned about middle class and poor man. —PETROLEUM MINISTER DHARMENDRA PRADHAN

BUZZ FROM GOVERNMENT

We will come out with our recommendations on allowing in-flight connectivity by December-end. The broad point is that in-flight connectivity shall be allowed. —TRAJ CHAIRMAN RS SHARMA



Depositors' money in banks is safe: Modi

PNS ■ NEW DELHI

Allaying fears of depositors in their bank accounts, Prime Minister Narendra Modi on Wednesday said that deposits in banks would be safe and their interests would not be harmed in any way. Modi further said that banks were pressured to give loans worth thousands of crores of rupees to select industrialists in a scam bigger than 2G, coal and Commonwealth Games scams.

The Prime Minister's statement comes at a time when rumours in the social media are being spread about the misuse of depositors' money after the Financial Resolution and Deposit Insurance (FRDI) Bill comes into effect by the Government.

Addressing an august gathering of industry leaders, Modi however clarified that the government is trying to strengthen the banking system by policy initiatives and dismissed the rumours being spread by some sections about provisions of the proposed FRDI Bill under which the depositors would suffer.

"The Government is trying to strengthen the banking system by policy initiatives on a daily basis. But on social media rumours are being spread about the FRDI Bill, which is completely opposite to the reality. We are trying to protect the depositors interest and the banks as well," Modi said while address-



'Govt is trying to strengthen the banking system by policy initiatives on a daily basis, but on social media rumours are being spread'

ing FICCI's AGM here.

Appreciating his Government's efforts, he further said, "I would like to congratulate the FICCI for its 90 years of operation. Ninety years ago, along with normal duties and responsibilities, national duties and responsibilities were carried out and we are doing so now."

Talking about small businesses, Modi said that his Government is giving a boost to start-ups. "In the last three years, because of our decisions, there has been a lot of advancement in these areas. In the last government, large businesses were given huge loans by putting pressure on the banks," he said.

Listing out his Government's pro-poor policies, Modi said free cooking gas connections have been given to

over 3 crore women; 30 crore bank accounts have been opened as part of financial inclusion; over ₹4 lakh crore guarantee-less loans have been given to about 9.75 lakh youth for business; 5 crore toilets built and affordable housing for rural poor launched.

"My Government is ending this fight with the system. It is not only transparent, but also sensitive. So, when we started the 'Jan Dhan Yojana', we got such a great response. At the time of starting it, we didn't know how many accounts we would have to open. There was no such data. We just knew that the poor were turned away. Now, with 30 crore accounts being opened, we have an idea of what a change this has created," he added.

This Government is framing policies keeping the needs of the youth in mind. In the last three years, 87 reforms in 21 sectors have been undertaken to overhaul the economy, he said.

The industry, he said, had been long demanding Goods and Services Tax (GST) and the BJP-led Government implemented it and introduced measures like anti-profiteering to see that businesses pass on the benefit of lower taxes to the people.

"As the Government makes efforts to ensure maximum businesses register for GST, the more formal the system becomes, the more it will benefit the poor," he added.

Sensing tax evasion, I-T conducts surveys of Bitcoin exchanges



PNS ■ NEW DELHI

After Reserve Bank of India's precautionary remarks on Bitcoins, the Income Tax Department on Wednesday conducted survey operations at major Bitcoin exchanges across the country on suspicion of alleged tax evasion, official sources said.

They said various teams of the sleuths of the department, under the command of the Bengaluru investigation wing, on Wednesday visited the premises of nine such exchanges in the country including in Delhi, Bengaluru, Hyderabad, Kochi and Gurugram, since early morning.

The survey, under section 133A of the Income Tax Act, is being conducted for "gathering evidence for establishing the identity of investors and traders, transaction undertaken by them, identity of counterparties, related bank accounts used, among others," they said.

The survey teams, sources said, are armed with various financial data and inputs about the working of these exchanges and this is the first big action against them in the country.

Bitcoin, a virtual currency, is not regulated in the country and its circulation has been a

S Korea bans banks, FIs from dealing in Bitcoin

SEOUL: South Korea on Wednesday banned its financial institutions from dealing in virtual currencies such as Bitcoin, as the cryptocurrency soars in a bubble fuelled by retail speculators, many of them from the country. The hyper-wired country has emerged as a hotbed for cryptocurrency trading, accounting for some 20 per cent of global Bitcoin transactions — about 10 times its share of the world economy. About one million South Koreans, many of them small-time investors, are estimated to own Bitcoins, and demand is so high that prices for the unit are around 20 percent higher than in the US, its biggest market. World Bitcoin prices have surged globally this year, soaring from less than \$1,000 in January to \$17,000 this week. AFP

cause of concern among central bankers the world over for quite a while now.

The Reserve Bank of India has also cautioned users, holders and traders of virtual currencies, including bitcoins.

In March, the Union finance ministry had constituted an Inter-Disciplinary Committee to take stock of the present status of VCs both in India and globally and suggest measures for dealing with such currencies.

India's interests protected even if WTO Ministerial fails

T S VISHWANATH ■ BUENOS AIRES



Proposal on Trade related Intellectual Property Rights and Convention on Bio Diversity are likely at WTO meet

government of India.

The foresight of the government to seek a decision at Geneva in 2014 to ensure that the Peace Clause agreed at Bali in 2013 will be available even after 2017, if a permanent solution is not adopted by then, provides the comfort to India that, for the present there will be no problem in providing market price support to staples, officials said. The support can be as high as 50 to 100 per cent as India is allowed to provide domestic support up to 10 per cent of the value of production of the concerned crop. At present the support on rice is as low as four per cent and zero per cent for wheat.


Within the next one year the government will also meet obligation set at Bali of complying with exiting and additional notification requirements that will allow the country to, if necessary, exceed its ceiling entitlement to provide product specific domestic support.

In the meetings on

Wednesday, what India and several other developing countries are seeking from the WTO is a decision at Buenos Aires that member countries will work to re-affirm the principles of the WTO and will continue to support the issue of the need for transparency and inclusiveness among the membership of WTO. India will also seek the reaffirmation of the continuation of the Doha work programme.

On the issue of a work programme on E-commerce, it is likely that member countries may come close to the demand from India to continue discussions in the same format as has been happening at WTO since the subject was brought into the multilateral forum for discussions. India is supported by South Africa and Uganda on this issue, besides several other developing countries.

Another issue that India is likely to bring to the table for a possible decision at Buenos Aires is a proposal on TRIPS (Trade related Intellectual Property Rights) and CBD (Convention on Bio Diversity). Under this proposal, India will look at non-violations in patent applications when traditional knowledge genetic resources are concerned. As per this proposal, an entity or individual applicant of any patent will have to provide details of any existing traditional knowledge that exists on the product that the entity or individual is seeking to patent. This will protect several products where traditional knowledge exists in India.



# ATLAS JEWELLERY INDIA LIMITED

CIN: L74140DL1989PLC131289

Reg. Off. : DTJ-719, 7<sup>th</sup> Floor, DLF Tower-B, Plot No: 11, Jasola, New Delhi-110025

Email: info@atlasjewelleryindia.com Phone: 011-41041149/ 40541077 Web: www.atlasjewelleryindia.com

**EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE SECOND QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2017** (Rs. in lacs except per share data)

S. No.	Particulars	Quarter ended 30 <sup>th</sup> September, 2017 Un-Audited	Year to date Ended 30 <sup>th</sup> September, 2017 Un-Audited	Corresponding Quarter ended in the previous year 30 <sup>th</sup> September, 2016 Un-Audited
1.	Total income from operations (net)	155.11	322.87	150.19
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	34.69	(104.59)	(352.39)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	8.01	(131.27)	(352.39)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	14.55	(151.01)	(337.00)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	14.55	(151.01)	(337.00)
6.	Equity Share Capital	10065.45	10065.45	10065.45
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-
8.	Earnings Per Share (face value of Rs. 10 each) (before and after extraordinary items) -			
	1. Basic:	0.01	(0.15)	(0.33)
	2. Diluted:	0.01	(0.15)	(0.33)

**Notes :**

(1) The above is an extract of the detailed format of Standalone Financial Results for the second quarter and half year ended 30<sup>th</sup> September, 2017 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange www.bseindia.com and company's website www.atlasjewelleryindia.com.

(2) The above standalone Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended 30<sup>th</sup> September 2017 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at its meeting held on Tuesday, 12<sup>th</sup> December 2017. The financial results are prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (Ind AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 (as amended).

(3) In accordance with the requirement of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Statutory Auditors have performed review of the above Standalone Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended 30<sup>th</sup> September 2017.

(4) The Ind AS compliant financial results, pertaining to the quarter and half year ended 30<sup>th</sup> September 2016 have not been subject to limited review or audit. However, the management has exercised necessary due diligence to ensure that such financial results provide a true and fair view of its affairs.

(5) The Statement does not include Ind AS compliant results for the previous year ended March 31<sup>st</sup>, 2017 as the same is not mandatory as per SEBI's Circular dated-July 05, 2016.

(6) There is a possibility that these quarterly financial results may require adjustments before the constituting the final Ind AS Financial Statements as of and for the year ended 31<sup>st</sup> March 2018 due to change in financial reporting requirements arising from new or revised standards interpretations issued by MCA or changes in the use of One or more optional exemptions from full retrospective application as permitted under Ind AS-101.

(7) The company has only one segment of revenue.

(8) The Auditors have made observation regarding non-recognition of expected credit loss on export trade receivables. The management is of the view that in light of the recovery suit filed by the Company against the trade receivables and further looking at the uncertainty regarding the time frame and quantum of realization from these trade receivables, the amount of expected credit loss required to be recognized cannot be estimated. The same shall be provided as and when the information regarding quantum and time frame of realization from these export trade receivables is ascertained.

(9) The loans and advances pertain to Indoriant Financial Services Limited and Carnation Commodities Pvt Limited provided by the erstwhile GEE EL Woollens Limited (presently ATLAS Jewellery India Limited). The present management of the Company is taking all steps to recover these old loans/advances and has also issued notices to the erstwhile promoter/s and Board of Directors of GEE EL Woollens Limited in this regard. The management is hopeful of recovering these old dues and has issued notices to both the said parties. The Company is also contemplating filing legal suits/ taking other appropriate actions as it deems necessary for recovery.

(10) The reconciliation statement of Net Profit/(Loss) as previously reported (referred to as GAAP) and the Total Comprehensive Income as per Ind AS for the quarter & half year ended 30<sup>th</sup> September 2016 is as per the table below:

Particulars	Half Year Ended 30 <sup>th</sup> Sept 2016
<b>Profit after tax as per Indian GAAP</b>	<b>(360.38)</b>
i) Impact of financial assets and liabilities at amortized cost	(0.22)
ii) Deferred tax on the above mentioned adjustments	0.07
<b>Profit after tax as per Ind As</b>	<b>(360.53)</b>
Other Comprehensive Income (Net of Tax)	-
<b>Total Comprehensive Income as reported under Ind As</b>	<b>(360.53)</b>

(11) Figures have been reclassified/regrouped wherever necessary to make them comparable.

For ATLAS Jewellery India Ltd  
 Sd/-  
 Nanda Kumaran Puthezhath  
 Chairman  
 DIN: 02547619

Place : Bengaluru  
 Date : December 12, 2017

Bankers decide to refer 22-23 large NPA accounts to NCLT

MUMBAI: Unable to find any resolution on 28 stressed accounts from the second list, the lenders will be initiating insolvency proceedings against 22-23 of these borrowers which include Uttam Galva Steel, IVRCL, Ruchi Soya Industries and Essar Projects, a banker said.

The Reserve Bank deadline to resolve these 28 accounts ended on Wednesday. The regulator in August had asked bankers to refer these cases to the National Company Law Tribunal (NCLT) if they failed to find a resolution by December 31.

These accounts together have an exposure of ₹1.4 lakh crore. "Except for Anrak Aluminium, Jayaswal Neco Industries, Soma Enterprises and Jaiprakash Associates, all other accounts are going to the NCLT for resolution," said a senior banker on Wednesday.

Banks have decided to refer Asian Color Coated Ispat, Castex Technologies, Coastal Projects, East Coast Energy, IVRCL, Orchid Pharma, SEL Manufacturing, Uttam Galva

BANKERS SAID NOTHING WORKED OUT IN TERMS OF DETERMINING THE SUSTAINABLE AND NON-SUSTAINABLE PARTS OF THE DEBT IN MOST OF ACCOUNTS

Metallic, Uttam Galva Steel, Visa Steel, Essar Projects, Jai Balaji Industries, Monnet Power, Nagarjuna Oil Refinery, Ruchi Soya Industries and Wind World India, to NCLT for insolvency proceedings.

Lenders have already decided a restructuring plan for Jayawal Neco Industries and Soma Enterprise. In the case of Anrak Aluminium, banks are looking for a one-time settlement.

"ICICI Bank, which is the consortium leader for Jaiprakash Associates, is seeking a special dispensation from the RBI for not taking it to NCLT as it has already decided a deep restructuring scheme for the account," a banker said.

The lenders have also sought RBI's permission to extend the December 13 deadline for Videocon Industries, where they have huge exposure, said another banker.

"If the RBI gives us some extension for Videocon Industries, then it is fine. Otherwise, it will also have to go to the NCLT," said the banker.

The lenders had the restructuring option under S4A (scheme for sustainable restructuring of stressed assets), SDR (strategic debt restructuring) or 5/25 schemes till Wednesday for all the 28 accounts.

Bankers, however, said nothing worked out in terms of determining the sustainable and non-sustainable parts of the debt in most of accounts.

"We were also supposed to get mandatory rating from rating agency for these accounts. Who will give investment grade to these NPA accounts?" said a senior banker official from a state-run bank. Now banks will have to make a provision of 50 per cent on these accounts by March 2018. PTI

Market turns shaky on ADB growth forecast, macro fears

MUMBAI: A set of lacklustre economic data spoiled investor mood on Wednesday as benchmarks Sensex and Nifty gave in by surrendering all their early gains and ended in the red.

Participants got the chills as the Asian Development Bank (ADB) on Wednesday lowered India's economic growth forecast for 2017-18 to 6.7 per cent from 7 per cent, citing lingering effect of demonetisation, transitory challenges to GST and weather-related risks to agriculture.

Government macro data were not favourable either, which showed November consumer inflation jumped to a 15-month high of 4.88 per cent and October industrial production growth hit a 3-month low of 2.2 per cent.

Investors also looked forward to the Federal Reserve's

UNITECH DIVES 16%

Unitech on Wednesday slipped more than 16 per cent after the Supreme Court stayed NCLT order allowing the Centre to take over the management of the embattled firm. The apex court on Wednesday stayed the December 8 order of the company law tribunal NCLT in this respect.

two-day policy meeting outcome later in the day.

The BSE index changed sides many a time, which settled down by 174.95 points, or 0.53 per cent, at 33,053.04 — a level last seen on December 7. The previous day's loss was 228 points.

The 50-share NSE Nifty failed to hang on to 10,200 by falling 47.20 points, or 0.46 per cent, at 10,192.95 after hovering between 10,169.85 and 10,296.55.

PNS

Govt. of Bihar

**BIHAR STATE POWER (HOLDING) COMPANY LIMITED**  
(A Government of Bihar Undertaking)

REGD OFFICE: VIDYUT BHAWAN, BAILEY ROAD, PATNA  
Contact No- 0612-2504487, 7763813954, Fax No- 0612-2504487  
TINVAT No- 10011255025 CIN - U40102BR2012SGC018495  
DEPARTMENT OF GENERAL ADMINISTRATION  
Second Extension Tender Notice  
NIT NO:-32/PR/BSPHCL/2017  
PR No.-8370

For Selection of Bidder for Appointment of a HR Agency for recruitment of various post through online examination for BSP(HJCL).

(Through e-procurement mode only- www.eproc.bihar.gov.in)

The last date for submission of Tender is hereby extended -

Period of Sale/download of RFP document	Up to 21.12. 2017 (up to 13:00 Hrs.) through website www.eproc.bihar.gov.in
Submission of RFP in soft-copy through website www.eproc.bihar.gov.in	Up to 27.12.2017 (up to 15:00 Hrs.) DD of Rs. 2,000.00 (Rupees two thousand) only will be deposited as cost of BOQ & for EMD Rs. 25,000.00 (Rs. Twenty Five Thousand) only DD in favour of "Accounts Officer, BSP(HJCL), Patna in a separate envelope before last date of opening of Technical & Commercial Part.
Date of opening of Technical & Commercial Part:	28.12.2017 at 16:00 Hrs.
Date of opening of Price Part:	To be notified after Technical Bid Evaluation (www.eproc.bihar.gov.in )

For details kindly visit website - www.bsphcl.bih.nic.in and www.eproc.bihar.gov.in

"निर्धार के विधान के लिए लोक अदालत का काम करना है" "समय एवं खर्च की बचाव करें!"

GM (HR & Adm.)

PR. 10853 ( Ni Ni ) 2017-18 आओ सब मिलकर बात करें, बंद हो दहज, शुरुआत करें!

**MUMBAI DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-I**  
(Govt. Of India, Ministry of Finance)  
5th Floor, Scindia House, Opp. L & T House, Narolam Morari Marg, Ballaroi Estate, Mumbai-400 001.

**TOA. 323 OF 2016**

**PUNJAB NATIONAL BANK vs M/s. PISCES EXIM (INDIA) PVT. LTD & ORS**

**SUMMONS**

WHEREAS the applicant has instituted an applications U/S 19 of the Recovery of Debts due to Banks and financial Institutions Act, 1993 against you for the recovery of sum mentioned therein together with current and future interest and other reliefs. You are hereby summoned to appear and file written statement before this tribunal at 12.00 P.M. or at such time immediately thereafter according to the convenience of tribunal on Next Date Extended upto 05-02-2018 to answer the claim.

2. You are directed to collect the annexure on your appearance before the tribunal.

3. If you intend to file any documents, you may file the same with a list along with the written statement.

4. You should file your registered address and a memo of appearance when you enter appearance before the Tribunal either in person or by a Pleader/Advocate duly instructed.

5. Take notice that, in default of, your appearance on the day mentioned herein before, the proceeding will be heard and determined in your absence. Given under my hand and the seal of this Tribunal on this-30/11/2017.

(A. Murali) Registrar, I/C Mumbai Debts Recovery Tribunal-I

To, DEF-3 Mrs. Preeti Jena, At-Flat No.A/103, RNA Heights Co-op. Housing Society Ltd., JVL R, Next to Kalpataru Estate, Andheri (East), Mumhai-400 093. Also At-Flat No. 13, 1st Floor, C-Wing, Building No. 1. Kalapataru Estate Complex, Opp. Fantasy Land, Near Majas Depot. Jogeshwari Vikroli Link Road, Andheri (East), Mumhai-400 093. Also At- BC-1, Rose Wood Apartment, Mayur Villa-I, New Delhi-110 091. DEF-4 Mr. H. P. Appannachari At- Hoodi Village, Mahadevapura, Bangalore-560048, Karnataka.



# उग्र, हरियाणा और राजस्थान कुंभकरण की तरह सो रहे थे: उच्चतम न्यायालय

एजेंसी। नई दिल्ली

**उच्चतम न्यायालय** ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सरकारें अभी तक कुंभकरण की तरह सो रही थीं और अब वे उनके राज्यों में पेट कोक और फर्नेस आर्यल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश देने के लिए न्यायालय पर दोष मढ़ रही हैं। न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने इन राज्यों द्वारा ऐसा माहौल बनाने पर कड़ी आपत्ति की कि शीर्ष अदालत ने उन्हें नोटिस दिए बगैर ही यह आदेश पारित किया। नाराज पीठ ने कहा कि क्या इन राज्यों को नौद से जगाने का काम भी न्यायालय का है।

पीठ ने इस मामले में केन्द्र के हलफनामे का अवलोकन करने के बाद जानना चाहा, किस आधार पर आप कह रहे हैं कि उन्हें नोटिस दिए बगैर ऐसा किया गया? यदि राज्य सरकारें सो रही हों, तो क्या उन्हें

दाखिल करेंगे। पीठ ने कहा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने स्वेच्छ से हलफनामे दाखिल करके इस तथ्य को हटाने की बात कही है कि 24 अक्टूबर का आदेश इन राज्यों को नोटिस दिए बगैर ही पारित किया गया था। पीठ ने इसके साथ ही उन्हें दो सप्ताह के भीतर हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने टिप्पणी की कि जब उसने 24 अक्टूबर को इन राज्यों में एक नवंबर से पेट कोक और फर्नेस आर्यल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान की ओर से कोई भी वकील पेश नहीं हुआ था। शीर्ष अदालत ने 24 अक्टूबर के अपने आदेश में यह भी लिखा था, उत्तर प्रदेश और न ही राजस्थान की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित है। हरियाणा की ओर से पेश वकील ने हमसे दो मिम्ट प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया ताकि राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त किया जा सके।



शिमला में महापू चोटी पर बर्फबारी का आनन्द लेते पर्यटक

## यौन दुराचार के वीडियो के बारे में शिकायत के लिए पोर्टल बनाया जाए

**नई दिल्ली।** उच्चतम न्यायालय ने आज केन्द्र को निर्देश दिया कि बाल यौन दुराचार, बाल पोर्नोग्राफी और सामूहिक बलात्कार के वीडियो के बारे में नगरािकों को शिकायत दर्ज कराने के लिए अगले साल दस जनवरी तक एक वेबपोर्टल तैयार किया जाए। न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता को पीठ को केन्द्र ने बताया कि इस संबंध में एक पोर्टल बनाया गया है जो एक महीने के भीतर तैयार हो जाएगा। इस पोर्टल के इस्तेमाल के लिए एक मानक प्रक्रिया भी तैयार की जा रही है। पीठ ने कहा कि यही उचित समय है जब केन्द्र पोर्टल तैयार करे और जनता के उपयोग के लिए इसे उपलब्ध कराए। पीठ ने अपने आदेश में कहा, इस मामला काफी लंबे समय से लंबित है और सीबीआई के आठ अक्टूबर, 2015 के हलफनामे से हमें पता चलता है कि पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसलिए हम केन्द्र सरकार को इसे

## उच्चतम न्यायालय के एक और न्यायाधीश ने वकीलों के जोर से बोलने पर संयम खोया

एजेंसी। नई दिल्ली

**एक सप्ताह** के भीतर दूसरी बार उच्चतम न्यायालय के एक और न्यायाधीश ने वकीलों के एक दूसरे पर जोर से बोलने के प्रयास पर अपना संयम खोया और मामले की सुनवाई से यह कहते हुए इंकार डर दिया कि न्यायालय को अब ऐसे वकीलों से सख्ती से पेश आने की जरूरत है। न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण को पीठ ने संकटग्रस्त पलर्स एग्नोटेक कार्पोरेशन लि से संबंधित याचिकाओं के अवलोकन से पता चलता है कि यह स्थिति रिपोर्ट की बजाय टिप्पणियों सरीखी है। शीर्ष अदालत हैदराबाद के गैर सरकारी संगठन प्रज्वला द्वारा 2015 में एक पेन ड्राइव में दो वीडियो टेप के साथ तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्त को भेजा गए पत्र को जनहित याचिका के रूप में लेते हुए इस पर सुनवाई कर रही थी।

इसके साथ ही पीठ ने इस मामले की सुनवाई फरवरी के दूसरे सप्ताह के लिए स्थगित कर दी और कहा कि यदि बार पर इस तरह से बहस की जाएगी तो वह मामले को नहीं सुनेगी। सिंधवी ने कहा कि पलर्स एग्नोटेक को इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए जब उसकी कोई

### यूनितेक को...

जो की एक तरह से अंतिम आदेश है। एनसीएलटी ने केंद्र को रीयल एस्टेट फर्म का प्रबंधन अपने हाथ में लेने की अनुमति दे दी। इससे पहले, उच्चतम न्यायालय कल था। भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) 12 अंक की बायोमीट्रिक आधार संख्या जारी करता है। वहीं पैन आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। फार्म 60 उस व्यक्ति (कोई कंपनी नहीं) द्वारा की गई घोषणा होता है जिसके पास पैन नहीं है और वह कोई लेनदेन करता है।

### अमरनाथ गुफा...

वर्ष 18 जनवरी को होगी।

उल्लेखनीय है कि नवम्बर में एनजीटी ने पवित्र गुफा के दर्शन के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों को समुचित आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड की खिंचाई करते हुए कहा था कि वह समुचित ढंग से दर्शन करने से लोगों को वंचित नहीं कर सकता है।

अपने बच्चों को यह नहीं

बताया कि वह क्या काम करते हैं लेकिन हालात की मजबूरी है कि उन्हें यह काम करना पड़ता है। क्योंकि वह अपने बच्चों को रोजी-रोटी के साथ बेहतर स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। शायद ये बच्चे पढ़-लिख कर उन्हें इस काम से छुटकारा दिला सकें। यही बात वर्षों से उनके साथ काम करने वाले सुरेंद्र कुमार भी कहते हैं। वह बताते हैं कि सीवर सफाई कर्मी को एक दिन के लिए 200 से 300 रुपये ही मिलते हैं। दो साल पहले काम के दौरान सुरेंद्र भी बेहोश हो चुके हैं। सीवर सफाई करने वाले कर्मचारियों को बूट, हेलमेट, दस्ताने और मास्क समेत अन्य जरूरी उपकरण दिए जाने चाहिए लेकिन इन नियमों का बहुत कम पालन किया जाता है। इस साल 10 कर्मचारियों की मौत सीवर साफ करने के दौरान हो चुकी है। दिल्ली विधानसभा में इस मुद्दे पर काफी हंगामा हुआ था और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हाथ से सफाई पर सवाल उठाया था।

### एक-47 राइफल केसाथ भाजपा नेता की तस्वीर वायरल

**जम्मू।** जम्मू कश्मीर भाजपा इकाई के एक नेता मुश्किलों में घिरे दिखे जब सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो गई जिसमें वह एक-47 राइफल के साथ दिख रहे हैं। इसके बाद पार्टी ने खुद को उनसे अलग कर लिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा, वह पार्टी के सक्रिय सदस्य नहीं हैं। आशीष सीन ने कल फेसबुक पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वह एके-47 राइफल के साथ दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस तस्वीर को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कुछ ने तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तक की मांग कर डाली।

<div><div><span><span></span></span></div><span><b>PUBLIC NOTICE</b></span></div>
<div><div><span><span></span></span></div><span>I Swamjee Singh Malhotra S/o Sh. Mangal Singh Malhotra R/o H/O F-5 MUKH-RAM GARDEN NEAR CHOUKHANDI CHOWK TILAK NAGAR DELHI have entered into an agreement to sell with Mr. Ravindra Singh S/o Late Shri Baldev Singh R/o AC-11 GANGA RAM VATIKA 2ND FLOOR CHOWKHANDI CHOWK TILAK NAGAR NEW DELHI to purchase the property owned by him as described in the schedule below:</span></div>

<div><div><span><span></span></span></div><span><b>PUBLIC NOTICE</b></span></div>
<div><div><span><span></span></span></div><span><b>This is to inform public in general that Kotak Mahindra Bank Ltd has organized an auction in below mention respect of vehicles.</b></span></div>
<div><div><span><span></span></span></div><span><b>VEHICLE FOR SALE</b></span></div>
<div><div><span><span></span></span></div><span><b>1)TATA LPT 1109</b></span></div>
<div><div><span><span></span></span></div><span><b>UP16T6185-YOM 2010</b></span></div>
<div><div><span><span></span></span></div><span><b>2) ASHOK LEYLAND</b></span></div>
<div><div><span><span></span></span></div><span><b>ECOMET 1212 FB</b></span></div>
<div><div><span><span></span></span></div><span><b>HR38W5965-YOM 2016</b></span></div>
<div><div><span><span></span></span></div><span><b>3) TATA 1610 BUS</b></span></div>
<div><div><span><span></span></span></div><span><b>UP22T7093-YOM 2009</b></span></div>
<div><div><span><span></span></span></div><span><b>4) TATA 1613 SE</b></span></div>
<div><div><span><span></span></span></div><span><b>HR55Q3288-YOM 2012</b></span></div>
<div><div><span><span></span></span></div><span><b>5) ELCHER 1075</b></span></div>
<div><div><span><span></span></span></div><span><b>DL1LW3281-YOM 2015</b></span></div>
<div><div><span><span></span></span></div><span><b>6) TATA 2518</b></span></div>
<div><div><span><span></span></span></div><span><b>HR55J4660-YOM 2009</b></span></div>
<div><div><span><span></span></span></div><span><b>UNDER HYPOTHEICATION WITH M/S KOTAK MAHINDRA BANK IS UNDER SALE IN ITS</b></span></div>
<div><div><span><span></span></span></div><span><b>“AS IS WHERE IS CONDITION”</b></span></div>
<div><div><span><span></span></span></div><span><b>INTERESTED PARTIES CAN GIVE THEIR QUOTATIONS WITH IN 07 DAYS AT</b></span></div>
<div><div><span><span></span></span></div><span><b>BRANCH ADDRESS:</b></span></div>
<div><div><span><span></span></span></div><span><b>PLOT NO.7 INSTITUTIONAL AREA, SECTOR-125 NOIDA NEAR DELL CAMPUS NOIDA (U.P) OR</b></span></div>
<div><div><span><span></span></span></div><span><b>CONTACT : RAMAN JOSHI</b></span></div>
<div><div><span><span></span></span></div><span><b>KOTAK MAHINDRA BANK LTD. CONTACT / 0206173343</b></span></div>
<div><div><span><span></span></span></div><span><b>EMAIL : raman.joshi@kotak.com</b></span></div>

<b>अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा (धारा 82 Cr.P.C. देखिये)</b>
मेरे समक्ष परिवारद किया गया है कि <b>दलिप कुमार पुत्र श्री खेता राम निवासी</b> मकान नं. बी-441, माया विहार, मदनपुर डबास, दिल्ली ने मुकदमा <b>प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 1197 /14 धारा 323/341/34</b> मा.द.सं. के तहत <b>थाना अमन विहार, दिल्ली</b> के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त <b>दलिप कुमार</b> मिल नहीं रहा है, और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त <b>दलिप कुमार</b> फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि <b>प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 1197 /14 धारा 323/341/34</b> मा.द.सं. के तहत <b>थाना अमन विहार, दिल्ली</b> के उक्त अभियुक्त <b>दलिप कुमार</b> से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवारद का उत्तर देने के लिए दिनांक <b>12.03.2018</b> को या इससे पहले हाजिर हों।
<b>आदेशानुसार</b> <b>श्री अनुराग ठाकुर,</b> <b>महानगर दंडाधिकारी (उत्तर-पश्चिम-02),</b> <b>कमरा नं. 113, पहला तल, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली</b>
DP/377/OD/17

<b>गुमशुदा की तलाश</b>
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक लड़का जिसका नाम <b>सूरज S/o श्री हरेंद्र दास R/o</b> मं. नं. 18/22, मंदिर वाली गली, नरेश का मकान बाबा हरौदास कॉलोनी, टिकरी बॉर्डर, नई दिल्ली जो कि 22.10.2017 से क्षेत्र थाना मुंडका, दिल्ली से लापता है। इस बाबत FIR No. 287/17 u/s 363 IPC दिनांक 28-10-2017 थाना मुंडका, दिल्ली में दर्ज है। लापता लड़के का ब्यौरा इस प्रकार है: <p><b>नाम: सूरज, पिता का नाम: श्री हरेंद्र दास, उम्र: 15 वर्ष, कदम: 5'4", रंग: गोरा, चेहरा: लम्बा, पहचान चिन्ह:</b> दिमाग से कमजोर व पीठ पर चोट का निशान, जिसने स्लेटी रंग की टी-शर्ट, नीले रंग का लोवर तथा पैरों में भूरे रंग की हवाई चप्पल पहनी है। अगर किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई जानकारी/सूचना मिले तो अधोहस्ताक्षरित एवं निम्नलिखित नम्बरों पर सूचित करने की कृपा करें।</p> वेबसाइट: http://cbi.nic.in ई-मेल: cbc@cbi.gov.in फैक्स नं.: 011-24368639 फोन नं.: 011-24368638, 24368641 मो.: 8586 932309, 8586932308, 8586932312, 7065036129 DP/276/OD/17
<b>थानाध्यक्ष</b> <b>थाना: मुंडका, दिल्ली</b>

<b>गुमशुदा /अपहृत</b>
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक लड़की, जिसका नाम: काजल, पुत्र: श्री सुरेन्द्र, पता: ए-9सी, अवतिका एंक्लेव, रोहिणी दिल्ली, जो दिनांक 21.11.2017 से थानाक्षेत्र मंगोलपुरी, दिल्ली, से गुमशुदा /अपहृत है। इस बाबत FIR No. 1417/17 U/s 363 IPC, दिनांक 23.11.2017 से थाना मंगोलपुरी, दिल्ली, में दर्ज है। अनेक प्रयासों के बावजूद भी इस लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। गुमशुदा /अपहृत लड़की का ब्यौरा इस प्रकार है: <p>नाम: काजल, पुत्र: श्री सुरेन्द्र, पता: ए-9सी, अवतिका एंक्लेव, रोहिणी दिल्ली, उम्र: 14 वर्ष, कदम: 5' फीट, चेहरा: गोल, रंग: गोरा, शरीर: पतला, पहनावा: महरून रंग की सलवार-सूट और पैरों में चप्पल। अगर इस गुमशुदा /अपहृत लड़की के बारे में कोई जानकारी मिले तो इसकी सूचना थाना मंगोलपुरी, दिल्ली, को दें।</p> email: cbc@cbi.gov.in Fax: 011-24368639 Ph.: 011-24368638, 24368641 DP/368/OD/17.
<b>थानाध्यक्ष</b> <b>थाना, मंगोलपुरी, दिल्ली,</b> <b>फोन: 011-27921168, 27922186</b>

### पेज एक का शेष

### बैंकों में...

यह विधेयक अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था और इस समय संयुक्त संसदीय समिति के विचारधीन है। इस विधेयक में कहा जा रहा है कि वित्तीय संस्थानों जैसे कि बैंकों, बीमा कंपनियों और गैर-बैंकिंग संस्थानों के दिवालिया होने की स्थिति में एक समाधान निगम बनाने का प्रस्ताव है। यह निगम पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेगा और ऐसे संस्थानों को दिवालिया होने से बचाने के लिए कदम उठाएगा। इसके लिए वह इन संस्थानों की देनदारी को समाप्त कर सकता है। इसे प्रावधान को बेल-इन का नाम दिया गया है।

### जब राहुल...

अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और मनमोहन सिंह को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्यों आनंद शर्मा और रणदीप सुखेवाला इस बात से इंकार करते रहे कि पाकिस्तानी नेता के साथ कोई बैठक हुई थी। और बाद में सम्माननीय मनमोहन सिंह ने यूरन क्यों लिया और घोषित किया कि बैठक हुई थी। जब इस गुप्त बैठक का खुलासा हो गया तब सम्माननीय मनमोहन सिंह जी ने कहा कि बैठक में भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा हुई। उन्होंने इस बारे में भारत सरकार को बताया जरूरी क्यों नहीं समझा?

### राहुल के...

प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 126(1)(बी) और इस संबंध में चुनाव आयोग के कानूनी निर्देशों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन किया है। भाजपा ने इन साक्षात्कारों के बारे में चुनाव आयोग से शिकायत की थी। आयोग ने टीवी साक्षात्कार चैनलों से राहुल गांधी का समाचार का प्रसारण तुरंत रोकने को कहा क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग का उल्लंघन किया है। आयोग ने गुजरात के चुनाव अधिकारियों से कानूनी प्रावधानों में हस्तक्षेप करने वाले किसी के भी खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है। आयोग के प्रेस बयान में कहा गया कि समुचित विचार विमर्श के बाद गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया

जाता है कि गुजरात के दूसरे चरण के मतदान वाले जिले में उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसमें कहा गया, इसके अलावा, गुजरात के दूसरे चरण के मतदान वाले जिलों में इस तरह के चुनावी मामलों का प्रदर्शन कर धारा 126(1)(बी) का उल्लंघन करने वाले ऐसे टीवी चैनलों को इस प्रकार के मामलों को तुरंत रोकने का निर्देश दिया जाता है। चुनाव आयोग ने कहा कि उसे आज इस तरह की रिपोर्टें और शिकायतें मिली थीं कि गुजरात में कुछ टीवी चैनलों ने राहुल द्वारा दिए साक्षात्कार को प्रदर्शित किया जासकते हैं अन्य चुनावों के बारे में बात की गई है।

### गुजरात में...

चुनाव प्रचार के दौरान मंदिरों में उनके जाने के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता ने सवाल करते हुए पूछा, क्या मंदिरों में जाने पर प्रतिबंध है? मैं मंदिरों में जाता हूं क्योंकि मुझे वहां जाना अच्छा लगता है।

### मनमोहन ने...

पहले चरण के तहत नौ दिसंबर को मतदान हो चुका है। चुनाव के परिणाम 18 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगने को कहा है। इससे पहले आज मनमोहन एवं मोदी का आमना-सामना 2001 के संसद हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम में हुआ था जहां दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया।

### सरकार ने...

ग्राहक द्वारा खाता आधारित संबंध शुरू करने के लिए आधार या पैन या फार्म 60 देने की अनिवार्य तारीख 31 मार्च, 2018 या खाता खोलने के छह माह के भीतर जो भी बाद में हो, होगी। यह तारीख बढ़ाने का फैसला बैंकों से इस बारे में मिली सूचना के आधार पर किया गया है। इससे पहले केंद्र ने पिछले सप्ताह उच्चतम न्यायालय को सूचित किया था कि वह विनिश्चन सेवाओं और समाज कल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को जोड़ने की समयसीमा को बढ़ाकर 31 मार्च,